



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक 1932 (श0)  
(सं0 पटना 751) पटना, बुधवार, 10 नवम्बर 2010

सं० बी०/मृ०-01-1005/2010-625  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव।  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 24 जून, 2010

विषय :-

श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, मा० मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के निधन पर राजकीय शोक मनाये जाने के सम्बंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे दुःख के साथ सूचित करना है कि श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, मा० मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार का दिनांक 23 जून 2010 को निधन हो गया है।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिवंगत नेता के सम्मान में इस राज्य में दिनांक 24 जून 2010 को एक दिन का राजकीय शोक मनाया जायेगा। इस अवधि में उन सभी भवनों, जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जायेगा। इस अवधि में कोई राजकीय समारोह एवं सरकारी मनोरंजन (Official Entertainment) आयोजित नहीं होगा।

विश्वासभाजन,  
नवीन चन्द्र झा,  
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 751-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>